

माँ काली की आरती  
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली |  
तेरे ही गुण गायें भारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती ||  
तेरे भक्त जनों पे माता, भीर पड़ी है भारी |  
दानव दल पर टूट पडो माँ, करके सहि सवारी ||  
सौ सौ सहिों से तु बलशाली, दस भुजाओं वाली |  
दुखियों के दुखडें नविरती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती ||  
माँ बेटे का है इस जग में, बडा ही नरिमल नाता |  
पूत कपूत सूने हैं पर, माता ना सुनी कुमाता ||  
सब पर करुणा दरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली |  
दुखियों के दुखडे नविरती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती ||  
नहीं मांगते धन और दौलत, न चाँदी न सोना |  
हम तो मांगे माँ तेरे मन में, इक छोटा सा कोना ||  
सबकी बगिडी बनाने वाली, लाज बचाने वाली |  
सतयियों के सत को संवारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती ||  
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली |  
तेरे ही गुण गायें भारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती ||